

प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-11.03.2023

थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक की आँखों में स्प्रे डालकर छिनैती करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अन्दर किया गया गिरफ्तार-

थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा दिनांक-10.03.2023 को समय करीब 22:40 बजे ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की आँख में स्प्रे डालकर छिनैती करने के सम्बन्ध में थाना हरैया जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0स0 85 /2023 धारा धारा 392/ 411 IPC से सम्बन्धित **अभियुक्त 1-** अजय कुमार पुत्र साहबदीन को दिनांक-11.03.2023 को केशवपुर बाजार के पास से गिरफ्तार कर रूपये 10,000/- व एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल OPPO F19 के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया ।

अभियुक्त की गिरफ्तारी/ बरामदगी में अग्रणी भूमिका निभाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा हे0का0 इन्द्रेश यादव थाना हरैया जनपद बस्ती को उत्साहवर्धन हेतु रूपये 15,000/- के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय कुमार पुत्र साहबदीन निवासी ग्राम बाछनपुर थाना हरैया जनपद बस्ती उम्र करीब 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1. नगद रूपये 10,000/- |
2. एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल OPPO F19 |
3. एक अदद HDFC बैंक पासबुक |

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-10.03.2023 को संदीप कुमार पुत्र परमात्मा प्रसाद निवासी ग्राम विजरा थाना हरैया जनपद बस्ती उम्र करीब 26 वर्ष जोकि ग्राहक सेवा केन्द्र भारतीय स्टेट बैंक के संचालक हैं, के द्वारा थाना हरैया जनपद बस्ती पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मैं भारतीय स्टेट बैंक शाखा भदावल के सामने NH-28 के किनारे स्थित अपने ग्राहक सेवा केन्द्र पर बैठा था कि समय करीब 06:00 बजे एक व्यक्ति पैसा निकालने के लिये आया था जोकि अपना नाम-पता अजय कुमार पुत्र साहबदीन निवासी ग्राम बाछनपुर थाना हरैया जनपद बस्ती बताकर बाहर जाकर सड़क पर इधर-उधर टहल रहा था कि शाम को समय करीब 18:00 बजे जब मैं दूकान में अकेला अपना हिसाब-किताब कर पैसा बैग मे रख रहा था कि पुनः वह व्यक्ति दूकान में आकर मेरी आंख में मिर्चीनुमा स्प्रे डालकर पैसों का बैग छीनने का प्रयास करने लगा | मैं आंख में तीव्र जलन होने के कारण आंख बन्द करके अपने बैग को दोनों हाथ से पकड़कर चिल्ला रहा था कि उसी दौरान वह व्यक्ति मेरे बैग का चैन खोलकर उसमें से कुछ धन राशि (बाद में गणना करने पर ज्ञात रुपया 10,000/-) निकालकर बाहर की ओर भागा जिसे मेरा शोर/ चिल्लाने की आवाज सुनकर आए आस-पास के लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया लेकिन वह व्यक्ति बचाकर भाग गया, जिस पर थाना हरैया जनपद बस्ती पर मु0अ0स0 85 /2023 धारा 356 IPC पंजीकृत कर दिनांक-11.03.2023 को थाना हरैया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन की चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1-अजय कुमार पुत्र साहबदीन को केशवापुर बाजार के पास से गिरफ्तार कर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मु0अ0स0 85/2023 धारा 356 IPC से धारा 392/411 IPC में तरमीम कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायलय बस्ती रवाना किया गया |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हरैया शैलेश कुमार सिंह जनपद बस्ती |
2. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सोनी थाना हरैया जनपद बस्ती |
3. हे0का0 इन्द्रेश यादव, का0 राकेश कुमार यादव थाना हरैया जनपद बस्ती |

